

क्या है कोरोना वायरस?

एक जीवाणु है। यह इतना छोटा है की आप इसे देख नहीं सकते।

Haaa haaa ha!
मैं अदृश्य हूँ।



जब यह बच्चों के शरीर में प्रवेश करता है, तो ज्यादातर समय यह गंभीर नहीं है। लेकिन वयस्क और बुजुर्ग बहुत बीमार पड़ सकते हैं।



कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है अगर वे एक दुसरे को छूते हैं या एक ही कमरे में होते हैं।



वायरस को धीमा करने के लिए और उसके संक्रमण को कम करने के लिए, हमने बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए और लोगों से कहा गया कि जितना हो सके अपने घर पर रहें।




बीमार लोगों को भी खुद को अलग करने के लिए कहा गया ताकि नए लोगों पर वायरस न फैले।

हम इसके बजाय फोन पर बात करेंगे, नानी।



मना की यह हमारे लिए कठिन है कि हम सब एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन यह वायरस के लिए और भी कठिन है। क्योंकि नए लोगों को संक्रमित करना अधिक कठिन हो जाता है।



वायरस को धीमा करने से, अस्पतालों और वैज्ञानिकों को इलाज खोजने और बीमार लोगों का इलाज करने का समय मिलता है।



घर पर रहने के अलावा, आप अपने हाथों को अक्सर धोएं और खांसते वक्त अपना मुंह ढक ले। इससे वायरस को धीमा करने में मदद कर सकते हैं।



अगर हर कोई सावधान रहे, तो हम अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं और जीवन बचा सकते हैं।

